



गहन सोच का अभ्यास (Practicing Critical Thinking)

क्रं सं	गहन सोच-मूल्यांकन के लिए छः महत्वपूर्ण बिंदु:-	आपके उत्तर
1.	क्या प्रासंगिक, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रश्न करने की क्षमता विकसित हुई?	
2.	क्या जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ी?	
3.	जीवन में हर दिन हमारे सामने आने वाले सवालों के कई संभावित उत्तर मिलते हैं। क्या अपने वातावरण के भीतर कई संभावनाओं के लिए हर समय खुले रहने की क्षमता विकसित हुई?	
4.	क्या निष्कर्ष निकालना और देखना कि हमारे प्रश्न का उत्तर दिया गया या नहीं या हमारी चुनौती हल हुई या नहीं, इसकी दक्षता हासिल हुई?	
5.	क्या सहयोगी समूह में सौहार्दपूर्ण संबंध रखने और प्रबंधन करने का तरीका सीखने की क्षमता का विकास हुआ?	
6.	क्या बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी निर्णय के सीमा और अहंकार के बिना आलोचनात्मक रूप से सोचने में सक्षम हुए?	